



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1707]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 11, 2016/आषाढ़ 20, 1938

No. 1707]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 11, 2016/ASADHA 20, 1938

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2016

**का.आ. 2342(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार में कोयला मंत्रालय के द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या का. आ. 1148(अ), तारीख 16 मार्च, 2016 जो भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii), तारीख 17 मार्च, 2016 में प्रकाशित की गई थी, उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में जिसका माप 74.233 हेक्टर (लगभग) या 183.43 एकड़ (लगभग) है, कोयले का पूर्वक्षण करने के अपने आशय की नोटिस दी थी;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना में उपाबद्ध अनुसूची में विहित की गई उक्त भूमि के भाग में कोयला अभिप्राय्य है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित 68.000 हेक्टर (लगभग) या 168.028 एकड़ (लगभग) माप की उक्त भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की नोटिस देती है:

**टिप्पण 1:** इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक संख्या एसईसीएल/बीएसपी/जीएम(पीएलजी)/भूमि/492, तारीख 23 मई, 2016 का निरीक्षण कलक्टर, जिला — रायगढ़ (छत्तीसगढ़) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता — 700001 के कार्यालय में या साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग), सीपत रोड, बिलासपुर-495006 (छत्तीसगढ़) के कार्यालय में किया जा सकता है।

**टिप्पण 2:** उक्त अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित उपबंध है:—

अर्जन की बाबत् आपत्तियाँ:

“8.(1) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में जिसकी बाबत् धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के निकाले जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा।

**स्पष्टीकरण.**—इस धारा के अन्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम अधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम अधिकारी, आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने, विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जाँच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझता है, वह या तो धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि का या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़े या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार होगा, यदि भूमि या किसी ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते हैं।”

**टिप्पण 3:** केन्द्रीय सरकार ने कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता-700001 को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचना संख्या का.आ. 905, तारीख 20 मार्च, 1987, जो भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में 4 अप्रैल, 1987 में प्रकाशित की गई थी सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है।

### अनुसूची

बरौद वाशरी, रायगढ़ क्षेत्र

जिला— रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

(रेखांक संख्या एसईसीएल/बीएसपी/जीएम(पीएलजी)/भूमि/492, तारीख 23 मई, 2016)

### सभी अधिकार:

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	पटवारी हल्का संख्या	तहसील	जिला	क्षेत्र हेक्टर में	टिप्पणियां
1.	फगुरम	4	घरघोड़ा	रायगढ़	68.000	भाग
कुल : 68.000 हेक्टर (लगभग) या 168.028 एकड़ (लगभग)						

1. ग्राम फगुरम (भाग) में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्या: 646/1(भाग), 647, 648, 648/1क, 648/1ख, 648/1ड, 648/1छ, 648/1ज, 648/2 से 648/8, 649/1, 649/2, 650 से 652, 653/1, 653/2, 654, 655, 656/1, 656/2, 656/3, 657/3, 658/1क, 658/1ख, 658/1ग, 658/2, 659, 660/1क(भाग), 685, 695/1, 766/1, 766/2, 766/3, 766/4, 767, 768.

### सीमा वर्णन :

क-ख	रेखा, बिन्दु “क” से आरंभ होती है और ग्राम फगुरम के प्लॉट संख्याक 646/1क से गुजरती है और बिन्दु “ख” पर मिलती है।
ख-ग	रेखा, बिन्दु “ख” से आरंभ होती है और ग्राम फगुरम के प्लॉट संख्याक 646/1क, 648/1क, 657/3 की पश्चिमी सीमा, 660/1क से होती हुई जाती है और बिन्दु “ग” पर मिलती है।
ग-घ	रेखा, बिन्दु “ग” से आरंभ होती है और ग्राम फगुरम के प्लॉट संख्याक 660/1क, 659, 658/1क, 658/2, 648/1क, 685, 648/1क, 695/1, 648/1ख के उत्तरी, 648/1ख, 648/1क, 766/1, 767 के पूर्वी सीमा से गुजरती है और बिन्दु “घ” पर मिलती है।
घ-ड	रेखा, बिन्दु “घ” से आरंभ होती है और ग्राम फगुरम के प्लॉट संख्याक 767, 768, 648/1क, 647 के पूर्वी, 648/1क, 646/1क के दक्षिणी सीमा से होती हुई जाती है और बिन्दु “ड” पर मिलती है।
ड-च	रेखा, बिन्दु “ड” से आरंभ होती है और ग्राम फगुरम के प्लॉट संख्याक 646/1क से होती हुई बिन्दु “च” पर मिलती है।
च-क	रेखा, बिन्दु “च” से आरंभ होती है और ग्राम फगुरम के प्लॉट संख्याक 646/1क से होती हुई जाती है और आरंभिक बिन्दु “क” पर मिलती है।

[फा. सं. 43015/4/2016-पीआरआईडब्ल्यू-1]

आर. पी. गुप्ता, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF COAL****NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th July, 2016

**S.O. 2342(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal number S.O. 1148(E), dated 16<sup>th</sup> March, 2016 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 17<sup>th</sup> March, 2016 issued under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 74.233 hectares (approximately) or 183.43 acres (approximately) of the lands in the locality specified in the Schedule annexed to that notification;

And whereas, the Central Government is satisfied that coal is obtainable in a part of the said lands prescribed in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the said Act, the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the land measuring 68.000 hectares (approximately) or 168.028 acres (approximately) as all rights in or over the said lands described in the schedule appended hereto:

**Note 1:** The plan bearing number SECL/ BSP/ GM(PLG)/ LAND/ 492, dated the 23<sup>rd</sup> May, 2016 of the area covered by this notification may be inspected in the office of the Collector, District Raigarh (Chhattisgarh) or in the office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata - 700001 or in the office of the South Eastern Coalfields Limited (Revenue Section), Seepat Road, Bilaspur-495006 (Chhattisgarh).

**Note 2:** Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the said Act which provides as follows:-

Objection to Acquisition:

“8. (1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued, may, within thirty days of the issue of the notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over such land.

**Explanation.**-It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either make a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of the proceedings held by him, for the decision of that Government.

(3) For the purposes of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act.”

**Note 3:** The Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata- 700001, has been appointed by the Central Government as the competent authority under section 3 of the said Act, vide notification number S.O. 905, dated the 20<sup>th</sup> March, 1987, published in Part II, Section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India, dated the 4<sup>th</sup> April, 1987.

**SCHEDULE**

Baroud Washery, Raigarh Area

District Raigarh (Chhattisgarh)

(Plan bearing number SECL/ BSP/ GM(PLG)/ LAND/ 492, dated the 23<sup>rd</sup> May, 2016)

All Rights:

Serial number	Name of village	Patwari halka number	Tahsil	District	Area in hectares	Remarks
1.	Phaguram	4	Gharghora	Raigarh	68.000	Part
Total: 68.000 hectares (approximately) or 168.028 acres (approximately)						

1. Plot numbers to be acquired in village Phaguram (Part): 646/1(P), 647, 648, 648/1ka, 648/1kha, 648/1anga, 648/1chha, 648/1ja, 648/2 to 648/8, 649/1, 649/2, 650 to 652, 653/1, 653/2, 654, 655, 656/1, 656/2, 656/3, 657/3, 658/1ka, 658/1kha, 658/1ga, 658/2, 659, 660/1ka(P), 685, 695/1, 766/1, 766/2, 766/3, 766/4, 767, 768.

**Boundary Description:**

- A-B Line starts from point 'A' and passes in village Phaguram through plot number 646/1ka and meets at point 'B'.
- B-C Line starts from point 'B' and passes in village Phaguram through plot number 646/1ka, 648/1ka, along western boundary of plot number 657/3, through 660/1ka and meets at point 'C'.
- C-D Line starts from point 'C' and passes in village Phaguram along northern boundary of plot number 660/1ka, 659, 658/ka, 658/2, 648/1ka, 685, 648/1ka, 695/1, 648/1kha, eastern boundary of plot number 648/1kha, 648/1ka, 766/1, 767 and meets at point 'D'.
- D-E Line starts from point 'D' and passes in village Phaguram along eastern boundary of plot number 767, 768, 648/1ka, 647, southern boundary of plot number 648/1ka, 646/1ka and meets at point 'E'.
- E-F Line starts from point 'E' and passes in village Phaguram through plot number 646/1ka and meets at point 'F'.
- F-A Line starts from point 'F' and passes in village Phaguram through plot number 646/1ka and meets at starting point 'A'.

[F. No. 43015/4/2016-PRIW-I]

R. P. GUPTA, Jt. Secy.